



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 26 अक्टूबर, 2024 / 04 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th October, 2024

No. HHC/GAZ/14-402/2020.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave *w.e.f.* 14-10-2024 to 23-10-2024 with permission to prefix Dussehra holidays falling 159—राजपत्र / 2024-26-10-2024 (7313)

w.e.f. 09-10-2024 to 13-10-2024 in favour of Ms. Parveen Khadwal, Civil Judge-cum-JMFC(III), Ghumarwin, H.P.

Certified that Ms. Parveen Khadwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Parveen Khadwal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC (III), Ghumarwin, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th October, 2024

No. HHC/GAZ/14-391/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 03 days earned leave *w.e.f.* 03-10-2024 to 05-10-2024 with permission to prefix gazetted holiday falling on 02-10-2024 in favour of Ms. Eeshani Sharma, Civil Judge-cum-JMFC, Arki, H.P.

Certified that Ms. Eeshani Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Eeshani Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Arki, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th October, 2024

No. HHC/GAZ/14-393/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave *w.e.f.* 01-10-2024 to 05-10-2024 with permission to suffix Sunday and Dussehra holidays falling *w.e.f.* 06-10-2024 to 09-10-2024 in favour of Dr. Yudh Veer Singh, Civil Judge-cum-JMFC, Sarkaghat, H.P.

Certified that Dr. Yudh Veer Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Yudh Veer Singh would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Sarkaghat, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th October, 2024

No. HHC/ Estt.3(408)/95-I.—03 days earned leave *w.e.f.* 21-09-2024 to 23-09-2024 and 01 day's earned leave for 26-09-2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Sanjeev Layal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Sanjeev Layal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Sanjeev Layal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th October, 2024

No. HHC/GAZ/14-243/99-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 30 days commuted leave *w.e.f.* 08-06-2024 to 07-07-2024 in favour of Sh. Barinder Thakur, District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P.

Certified that Sh. Barinder Thakur had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Barinder Thakur would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th October, 2024

No. HHC/GAZ/14-323/2011-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave *w.e.f.* 30-10-2024 to 08-11-2024 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 09-11-2024 and 10-11-2024 respectively in favour of Ms. Upasna Sharma, Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Palampur, H.P.

Certified that Ms. Upasna Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Upasna Sharma would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-ACJM, Palampur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

*Registrar General.***In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)**

Anil Kumar s/o Sh. Maan Singh aged 29 years, r/o Village Chated, P.O. Masroond, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

and

Jyoti d/o Sh. Beeru Ram aged 26 years, r/o Village Molo, P.O. Ouchghat, G.P. Sanhol, Tehsil Solan, Distt. Solan (H.P.).

Versus

The General Public

Subject.—Notice regarding registration of Marriage under sections 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 10-03-2021 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 07-11-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 7th day of October, 2024.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Ajay Kumar s/o Sh. Shiv Kumar aged 37 years, r/o Village Gholti, P.O. Sarol, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

and

Bimla Devi d/o Sh. Bhekhi Ram, r/o Village Bindwas, P.O. Salooni, Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.).

Versus

The General Public

Subject.—Notice regarding registration of Marriage under sections 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 14-12-2023 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 06-11-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 5th day of October, 2024.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Deepak Kumar s/o Sh. Bali Ram, r/o Village Lindi Behi, P.O. Khajjiar, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

and

Pooja d/o Sh. Man Singh, r/o Village Thalli, P.O. Kiri, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

Versus

The General Public

Subject.— Registration of Marriage under sections 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under sections 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 11-08-2023 at their place of residences with prevailing rites and customs but due to some unavoidable circumstances it could not be entered in the records Gram Panchayat Khajjiar, Development Block Chamba, Distt. Chamba (H.P.) well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary order for registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants they should appear before the undersigned in my court on or before 11-11-2024 at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 11th October, 2024.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Reena Devi d/o Sh. Sarnu, r/o Village Dhonni, P.O. Durgethi, Tehsil Bharmour,
District Chamba (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Reena Devi d/o Sh. Sarnu, r/o Village Dhonni, P.O. Durgethi, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of

Smt. Reena Devi d/o Sh. Sarnu born on 20-05-1991 for entry in the record of Gram Panchayat Durgethi, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.).

Sl. No.	Name of the Family Member	Relation	Date of Birth
1.	Smt. Reena Devi d/o Sh. Sarnu	Self	20-05-1991

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Durgethi they may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 16th day of October, 2024.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Indra Devi d/o Sh. Jaggo Ram w/o Atma Ram, r/o Village Siyunka, P.O. Ranukothi, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Indra Devi d/o Sh. Jaggo Ram w/o Atma Ram, r/o Village Siyunka, P.O. Ranukothi, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of Smt. Indra Devi d/o Sh. Jaggo Ram born on 04-08-1978 for entry in the record of Gram Panchayat Ranukothi, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.).

Sl. No.	Name of the Family Member	Relation	Date of Birth
1.	Smt. Indra Devi d/o Sh. Jaggo Ram	Self	04-08-1978

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Ranukothi they may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 10th day of October, 2024.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Jhanjhro d/o Sh. Rattano, r/o Village Luna, P.O. Aura, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Jhanjhro d/o Sh. Rattano, r/o Village Luna, P.O. Aura, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of Smt. Jhanjhro d/o Sh. Rattano born on 01-07-1975 for entry in the record of Gram Panchayat Sehli, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.).

Sl. No.	Name of the Family Member	Relation	Date of Birth
1.	Smt. Jhanjhro d/o Sh. Rattano	Self	01-07-1975

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Sehli they may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 10th day of October, 2024.

Seal.

Sd/-
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Sh. Dharam Pal s/o Sh. Chainu Ram, r/o Village Kugti, P.O. Kugti, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Dharam Pal s/o Sh. Chainu Ram, r/o Village Kugti, P.O. Kugti, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of Sh. Dharam Pal s/o Sh. Chainu Ram born on 16-04-1964 for entry in the record of Gram Panchayat Kugti, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.).

Sl. No.	Name of the Family Member	Relation	Date of Birth
1.	Sh. Dharam Pal s/o Sh. Chainu Ram	Self	16-04-1964

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Kugti they may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 8th day of October, 2024.

Seal.

Sd/
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Sh. Kamlesh Kumar s/o Sh. Kanchan Ram, r/o Village Lahal, P.O. Khani, Tehsil Bharmour,
District Chamba (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Kamlesh Kumar s/o Sh. Kanchan Ram, r/o Village Lahal, P.O. Khani, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed death of his grandfather *i.e.* 24-09-1984 for entry in the record of Gram Panchayat Khani, Development Block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances death could not be registered well in time.

Sl. No.	Name of the Family Member	Date of Death
1.	Bhagat Ram s/o Mehar	24-09-1984

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of death of above named in the records of concerned Gram Panchayat Khani they may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 16th day of October, 2024.

Seal.

Sd/
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Sh. Mithu Ram s/o Sh. Ranjha Ram, r/o Village Poolan, P.O. Sirdi, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Mithu Ram s/o Sh. Ranjha Ram, r/o Village Poolan, P.O. Sirdi, Tehsil Bharmour, District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of delayed birth of his daughter *i.e.* 15-03-2022 for further entry in the record of Gram Panchayat Poolan, Tehsil Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances death could not be registered well in time.

Sl. No.	Name of the Family Member	Date of Birth
1.	Mayra d/o Sh. Mithu Ram	15-03-2022

Hence, this Proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Poolan they may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand and seal today on this 8th day of October, 2024.

Seal.

Sd/
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).

**Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar), Majra,
District Sirmaur (H.P.)**

Case No.: 15/2024

Date of Instt.: 05-10-2024

Date of Decision: 05-11-2024

Ms. Noorjahan d/o Sh. Yusuph Ali, r/o Village Gujjar Colony Dhaulakuan, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public

..Respondent.

Application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Ms. Noorjahan d/o Sh. Yusuph Ali, r/o Village Gujjar Colony Dhaulakuan, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) has moved an application before the

undersigned under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 01-01-2006 at Village Gujjar Colony Dhaulakuan, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.), but her date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth & Death Registration Gram Panchayat Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed date of birth of Ms. Noorjahan d/o Sh. Yusuph Ali & Smt. Husan Bano, may submit their objections in writing in this court on or before 05-11-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 9th day of October, 2024.

Seal.

Sd/
(INDER KUMAR),
*Executive Magistrate (Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur (H.P.).*

**Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar), Majra,
District Sirmaur (H.P.)**

Case No.: 16/2024

Date of Instt.: 08-10-2024

Date of Decision: 11-11-2024

Smt. Jatun w/o Sh. Mohammad Rafi, r/o Village Gujjar Colony Dhaulakuan, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) ..*Applicant.*

Versus

General Public

..*Respondent.*

Application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Jatun w/o Sh. Mohammad Rafi, r/o Village Gujjar Colony Dhaulakuan, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her son namely Arman was born on 30-12-2018 at Village Gujjar Colony Dhaulakuan, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.), but his date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth & Death Registration Gram Panchayat Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed date of birth of Arman s/o Sh. Mohammad Rafi & Smt. Jatun, may submit their objections in writing in this court on or before 11-11-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 8th day of October, 2024.

Seal.

Sd/
(INDER KUMAR),
*Executive Magistrate (Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur (H.P.).*

**Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate (Naib-Tehsildar), Majra,
District Sirmaur (H.P.)**

Case No.: 17/2024

Date of Instt.: 08-10-2024

Date of Decision: 11-11-2024

Smt. Jatun w/o Sh. Mohammad Rafi, r/o Village Gujjar Colony Dhaulakuan, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) ..*Applicant.*

Versus

General Public

..*Respondent.*

Application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Smt. Jatun w/o Sh. Mohammad Rafi, r/o Village Gujjar Colony Dhaulakuan, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her daughter namely Alena was born on 19-08-2016 at Village Gujjar Colony Dhaulakuan, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.), but her date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth & Death Registration Gram Panchayat Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed date of birth of Alena d/o Sh. Mohammad Rafi & Smt. Jatun, may submit their objections in writing in this court on or before 11-11-2024 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 8th day of October, 2024.

Seal.

Sd/
(INDER KUMAR),
*Executive Magistrate (Naib Tehsildar),
Majra, District Sirmaur (H.P.).*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marrige Officer, Pachhad District,
Sirmaur, H.P.**

1. Mr. Bhisham Kumar s/o Sh. Govind Ram aged about 21 years, r/o Village Tamani, P.O. Tikkari Kathar, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P.

2. Ms. Ritika d/o Sh. Dala Ram aged 20 years, r/o Village Tiket Hatti, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P.

Versus

General Public

An application under Section 5 of Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Mr. Bhisham Kumar (Groom) s/o Sh. Govind Ram, aged about 21 years, D.O.B. 27-01-2003, permanent resident of Village Tamani, P.O. Tikkari Kathar, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P. and Ms. Ritika d/o Sh. Dala Ram aged about 20 years, D.O.B. 20-08-2004, Village Tiket Hatti, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P. (Bride) to get their marriage u/s 5 of the Special Marriage Act, 1954. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. Objections in this regard should reach to this court on or before 19-11-2024 failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 11-10-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Pachhad, District Sirmaur, H.P.*

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marrige Officer, Pachhad District,
Sirmaur, H.P.**

1. Mr. Ajay Kumar s/o Sh. Brij Mohan aged about 30 years, r/o Village Baru, P.O. Mangarh, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P.

2. Ms. Manju Kumari d/o Sh. Vijay Kumar aged 20 years, r/o Village Soda Dhiyari, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An application under Section 5 of Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Mr. Ajay Kumar (Groom) s/o Sh. Brij Mohan aged about 30 years, D.O.B. 16-12-1994, permanent resident of Village Baru, P.O. Mangarh, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P. and Ms. Manju Kumari d/o Sh. Vijay Kumar, aged about 20 years, D.O.B. 03-10-2005, Village Soda Dhiyari, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmaur, H.P. (Bride) to get their marriage u/s 5 of the Special Marriage Act, 1954. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. Objections in this regard should reach to this court on or before 28-11-2024 failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 11-10-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Pachhad, District Sirmaur, H.P.*

CHANGE OF NAME

I, Anita Kumari w/o Sh. Karan Singh Sharma, r/o Village & P.O. Rei, Tehsil Pangi, Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name which is wrongly entered as Anita in educational record of my son Saksham Sharma. My correct name is Anita Kumari. Concerned please note.

ANITA KUMARI
w/o Sh. Karan Singh Sharma,
r/o Village & P.O. Rei,
Tehsil Pangi, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tsering Dolkar d/o Pema Losal, r/o H. No. 12, Nangchen Division, P.O. Chauntra, Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi (H.P.) declare that the name in my renewed registration certificate has wrongly entered as Seema d/o Pema Losar and my birth place as Nangchen. But my correct name is Tsering Dolkar, my father's name is Pema Losal and my birth place is Kham Tibet.

TSERING DOLKAR
d/o Pema Losal,
r/o H. No. 12, Nangchen Division, P.O. Chauntra,
Tehsil Joginder Nagar, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sapna Kumari d/o Sh. Prithvi Chand, c/o Arun Kumar, Transit Accommodation Set No. 36, Block No. 4, Near SSB Gate Mehli, Shimla (H.P.) declare that my name wrongly entered as Sapna Bhatia in my 10th, 12th & other academic certificates. Whereas my correct name is Sapna Kumari. All concerned please may note.

SAPNA KUMARI
d/o Sh. Prithvi Chand,
c/o Arun Kumar,
Transit Accommodation Set No. 36, Block No. 4,
Near SSB Gate Mehli,
Shimla (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

हिलो देवी पुत्री जस्सा, निवासी मुहल्ला/गांव द्रबला, डा0 पल्यूर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुरैणा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या/2024, दिनांक 02-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9456, दिनांक 27-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया हिलो देवी पुत्री जस्सा, निवासी मुहल्ला/गांव द्रबला, डा0 पल्यूर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 10-10-1983 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कुरैणा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुरैणा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया हिलो देवी पुत्री जस्सा, निवासी मुहल्ला/गांव द्रबला, डा0 पल्यूर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 10-10-1983 को ग्राम पंचायत कुरैणा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 10-10-1983 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

यूसब पुत्र ईसा, निवासी मुहल्ला/गांव बगोडी, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2160/2024, दिनांक 08-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-16072, दिनांक 29-09-2023, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें ईसा पुत्र स्वार दीन, निवासी मुहल्ला/गांव बगोडी, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 15-08-2015 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत प्रौथा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ईसा पुत्र स्वार दीन, निवासी मुहल्ला/गांव बगोडी, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 15-08-2015 को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 15-08-2015 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

तृप्ता देवी पुत्री वासू, निवासी मुहल्ला/गांव दलेला, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2675/2024, दिनांक 15-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11060, दिनांक 30-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया तृप्ता देवी पुत्री

वासू, निवासी मुहल्ला/गांव दलेला, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 19-04-1992 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत प्रौथा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया तृप्ता देवी पुत्री वासू, निवासी मुहल्ला/गांव दलेला, डा0 साहो (पधर), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 19-04-1992 को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 19-04-1992 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

दिलो पुत्री हरू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 राख, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जांघी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1994/2024, दिनांक 03-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9466, दिनांक 27-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया दिलो पुत्री हरू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 राख, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1968 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जांघी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया दिलो पुत्री हरू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 राख, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1968 को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन

या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1968 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

दुनी चन्द पुत्र होशियारा, निवासी मुहल्ला/गांव दिम्मा, डा0 खजियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2048/2024, दिनांक 06-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9060, दिनांक 19-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी दुनी चन्द पुत्र होशियारा, निवासी मुहल्ला/गांव दिम्मा, डा0 खजियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 10-02-1966 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिंगी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिंगी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी दुनी चन्द पुत्र होशियारा, निवासी मुहल्ला/गांव दिम्मा, डा0 खजियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 10-02-1966 को ग्राम पंचायत सिंगी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 10-02-1966 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

मोहन पुत्र बंगाली, निवासी मुहल्ला/गांव दरोवड, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत अठलुई, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2337/2024, दिनांक 27-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-6730, दिनांक 16-03-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी मोहन पुत्र बंगाली, निवासी मुहल्ला/गांव दरोवड, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 15-07-1942 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत अठलुई के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अठलुई के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मोहन पुत्र बंगाली, निवासी मुहल्ला/गांव दरोवड, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 15-07-1942 को ग्राम पंचायत अठलुई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 15-07-1942 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

धनो पुत्री जीनू, निवासी मुहल्ला/गांव लखली, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2336/2024, दिनांक 27-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8037, दिनांक 06-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया धनो पुत्री जीनू, निवासी मुहल्ला/गांव लखली, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1954 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया धनो पुत्री जीनू, निवासी मुहल्ला/गांव लखली, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1954 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1954 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

सावर पुत्र हनीफ मोहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव सगुआ, डा0 पलूही, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या /2024, दिनांक 22-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10075, दिनांक 13-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी हनीफ मोहम्मद

पुत्र अबदुल क्रीम, निवासी मुहल्ला/गांव सगुआ, डा0 पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसके पुत्र की जन्म तिथि 26-12-2010 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कैला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कैला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हनीफ मोहम्मद पुत्र अबदुल क्रीम, निवासी मुहल्ला/गांव सगुआ, डा0 पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र की जन्म तिथि 26-12-2010 को ग्राम पंचायत कैला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 26-12-2010 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

माणो पुत्र हनीफ मोहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव सगुआ, डा0 पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2275/2024, दिनांक 22-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10076, दिनांक 13-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी हनीफ मोहम्मद पुत्र अबदुल क्रीम, निवासी मुहल्ला/गांव सगुआ, डा0 पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र की जन्म तिथि 27-03-2015 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कैला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कैला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हनीफ मोहम्मद पुत्र अबदुल क्रीम, निवासी मुहल्ला/गांव सगुआ, डा0 पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र की जन्म तिथि 27-03-2015 को ग्राम पंचायत कैला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को

आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 27-03-2015 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

सोनी पुत्री हनीफ मोहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव सगुआ, डा0 पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कैला, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2274/2024, दिनांक 22-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10077, दिनांक 13-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी हनीफ मोहम्मद पुत्र अबदुल क्रीम, निवासी मुहल्ला/गांव सगुआ, डा0 पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री की जन्म तिथि 26-12-2008 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कैला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कैला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हनीफ मोहम्मद पुत्र अबदुल क्रीम, निवासी मुहल्ला/गांव सगुआ, डा0 पलूहीं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री की जन्म तिथि 26-12-2008 को ग्राम पंचायत कैला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 26-12-2008 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

कमला देवी पुत्री चैनो, निवसी मुहल्ला/गांव कोलका, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोलका, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2501/2024, दिनांक 07-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11070, दिनांक 31-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया कमला देवी पुत्री चैनो, निवसी मुहल्ला/गांव कोलका, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 16-08-1978 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कोलका के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोलका के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कमला देवी पुत्री चैनो, निवसी मुहल्ला/गांव कोलका, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 16-08-1978 को ग्राम पंचायत कोलका के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 16-08-1978 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

आशा पुत्र बंगाली, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 लुडडू, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2750/2024, दिनांक 19-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11864, दिनांक 15-06-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया आशा पुत्र बंगाली, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 लुडडू, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 07-04-1974 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत लुडडू के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लुडडू के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया आशा पुत्र बंगाली, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 लुडडू, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 07-04-1974 को ग्राम पंचायत लुडडू के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 07-04-1974 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

सुदर्शना कुमारी पुत्री मान सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव बगा, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जांघी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3865/2024, दिनांक 30-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-15829, दिनांक 28-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सुदर्शना कुमारी

पुत्री मान सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव बगा, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 05-05-1981 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जांघी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सुदर्शना कुमारी पुत्री मान सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव बगा, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 05-05-1981 को ग्राम पंचायत जांघी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-05-1981 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

मीर बीबी पुत्री नूर हसन, निवासी मुहल्ला/गांव सलूण, डा0 साहो पधर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पधर साहो, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3286/2024, दिनांक 16-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-149782, दिनांक 16-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया मीर बीबी पुत्री नूर हसन, निवासी मुहल्ला/गांव सलूण, डा0 साहो पधर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 10-06-1972 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पधर साहो के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पधर साहो के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया मीर बीबी पुत्री नूर हसन, निवासी मुहल्ला/गांव सलूण, डा0 साहो पधर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 10-06-1972 को ग्राम पंचायत पधर साहो के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को

आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 10-06-1972 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

रतो पुत्री टिहरू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2284/2024, दिनांक 24-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10083, दिनांक 13-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया रतो पुत्री टिहरू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1963 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया रतो पुत्री टिहरू, निवासी मुहल्ला/गांव व डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1963 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1963 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

अनमोल पुत्र हरविलास किशतवाडिया, निवासी मुहल्ला/गांव चुहाडी, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बैली, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3534/2024, दिनांक 21-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-15469, दिनांक 21-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी किरपा राम पुत्र प्रभू, निवासी मुहल्ला/गांव चुहाडी, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र की जन्म तिथि 23-02-2023 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बैली के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बैली के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी किरपा राम पुत्र प्रभू, निवासी मुहल्ला/गांव चुहाडी, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र की जन्म तिथि 23-02-2023 को ग्राम पंचायत बैली के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 23-02-2023 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

ज्योती देवी पुत्री बाबू राम, निवासी मुहल्ला/गांव बख्तपुर, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2633/2024, दिनांक 13-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9448, दिनांक 27-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया ज्योती देवी पुत्री बाबू राम, निवासी मुहल्ला/गांव बख्तपुर, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 22-11-1993 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बख्तपुर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया ज्योती देवी पुत्री बाबू राम, निवासी मुहल्ला/गांव बख्तपुर, डा0 रठियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 22-11-1993 को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 22-11-1993 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

पिकी देवी पुत्री अमर नाथ, निवासी मुहल्ला/गांव मिल्हा, डा0 सिंगी, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3769/2024, दिनांक 28-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-15000, दिनांक 16-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया पिकी देवी पुत्री

अमर नाथ, निवासी मुहल्ला/गांव मिल्हा, डा0 सिंगी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 16-06-1973 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिंगी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिंगी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया पिकी देवी पुत्री अमर नाथ, निवासी मुहल्ला/गांव मिल्हा, डा0 सिंगी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 16-06-1973 को ग्राम पंचायत सिंगी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 16-06-1973 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

निर्मला देवी पुत्री चतरो राम, निवासी मुहल्ला/गांव चेली, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2140/2024, दिनांक 15-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-2860, दिनांक 19-02-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया निर्मला देवी पुत्री चतरो राम, निवासी मुहल्ला/गांव चेली, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 31-01-1978 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत चील बंगला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चील बंगला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया निर्मला देवी पुत्री चतरो राम, निवासी मुहल्ला/गांव चेली, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 31-01-1978 को ग्राम पंचायत चील बंगला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को

आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 31-01-1978 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

जैनव पुत्री युसफ, निवासी मुहल्ला/गांव कोणी दी बेई, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3074/2024, दिनांक 09-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9791, दिनांक 03-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया जैनव पुत्री युसफ, निवासी मुहल्ला/गांव कोणी दी बेई, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 13-08-1995 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत चम्बी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चम्बी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया जैनव पुत्री युसफ, निवासी मुहल्ला/गांव कोणी दी बेई, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 13-08-1995 को ग्राम पंचायत चम्बी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 13-08-1995 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

विमला पत्नी पुन्नू राम, निवासी मुहल्ला/गांव चंनैल, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुटेहड, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4179/2024, दिनांक 10-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17245, दिनांक 07-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी पुन्नू राम पुत्र परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव चंनैल, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि 13-08-2012 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कुटेहड के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत कुटेहड के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी पुन्नू राम पुत्र परस राम, निवासी मुहल्ला/गांव चंनैल, डा0 जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पत्नी की मृत्यु तिथि 13-08-2012 को ग्राम पंचायत कुटेहड के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उपरोक्त मृत्यु तिथि 13-08-2012 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : 29/तहसील /रीडर/2024

तारीख पेशी : 18-10-2024

धरमू पुत्र बलदेव, निवासी गांव/मुहल्ला कुम्हारका, परगना गुदियाल, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी धरमू पुत्र बलदेव, निवासी गांव/मुहल्ला कुम्हारका, परगना गुदियाल, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सिल्लाघराट, विकास खण्ड चम्बा में धर्म दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त है। परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल सिल्लाघराट के मुहाल सिल्ला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम धर्म सिंह दर्ज कागजात माल है जो की गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल सिल्लाघराट के मुहाल सिल्ला के राजस्व अभिलेख में धर्म सिंह की बजाये धर्म दुरुस्त करने के ओदश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि धर्म सिंह के नाम को धर्म दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : /तहसील /रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

सुभाष कुमार पुत्र भीखो, निवासी गांव/मुहल्ला ककडूई, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी सुभाष कुमार पुत्र भीखो, निवासी गांव/मुहल्ला ककडूई, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत हरीपुर, विकास खण्ड चम्बा व उसके आधार कार्ड में सुभाष कुमार दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त है। परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल हरीपुर के मुहाल गौला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुभाष चंद दर्ज कागजात माल है जो की गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल हरीपुर के मुहाल गौला के राजस्व अभिलेख में सुभाष चंद की बजाये सुभाष कुमार दुरुस्त करने के ओदश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि सुभाष कुमार के नाम को सुभाष चंद दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

छुणको पुत्री श्रीधर, निवासी मुहल्ला/गांव चेली, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2483/2024, दिनांक 04-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10102, दिनांक 13-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया छुणको पुत्री श्रीधर, निवासी मुहल्ला/गांव चेली, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 02-03-1952 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत चील बंगला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चील बंगला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया छुणको पुत्री श्रीधर, निवासी मुहल्ला/गांव चेली, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 02-03-1952 को ग्राम पंचायत चील बंगला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 02-03-1952 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

उर्मिला पुत्री दालती, निवासी मुहल्ला/गांव सरैला पानी, डा0 रठियारा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बख्तपुर, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2262/2024, दिनांक 22-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10463, दिनांक 18-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया उर्मिला पुत्री दालती, निवासी मुहल्ला/गांव सरैला पानी, डा0 रठियारा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 17-01-1986 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बख्तपुर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उर्मिला पुत्री दालती, निवासी मुहल्ला/गांव सरैला पानी, डा0 रठियारा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 17-01-1986 को ग्राम पंचायत बख्तपुर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 17-01-1986 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

समक्ष श्री कुलदीप सिंह नेगी ब अख्तियार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 04/2022

तारीख मरजुआ : 19-11-2022

तारीख पेशी : 29-10-2024

1. श्री विशम्बर नाथ पुत्र श्री अमर सिंह, 2. श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, 3. मोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, 4. श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री अमर सिंह, 5. श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री अमर सिंह,

6. श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री अमर सिंह, 7. श्रीमती कुसमा देवी पुत्री श्री अमर सिंह उपरोक्त सभी निवासीगण गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 वादी।

बनाम

1. श्री लच्छी राम पुत्र केवल राम वारसान, (a) श्री गुमान सिंह पुत्र स्व0 श्री लच्छी राम, गांव प्रेमनगर, (b) श्री कपिल देव पुत्र लच्छी राम, गांव कोटू, (c) श्रीमती जालमपति पत्नी स्व0 श्री लच्छी राम, गांव कोटू, (d) श्रीमती कमलेश पुत्री श्री लच्छी राम पत्नी श्री प्रकाश चन्द, गांव जखोड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (e) श्रीमती कल्पना पुत्री लच्छी राम विधवा श्री बोबी गांव रोहडू नजदीक शिकडू मन्दिर, तहसील रोहडू, (f) श्रीमती सुनिता, गांव बाली करासा, तहसील रोहडू, 2. श्री शिशी राम पुत्र श्रीमती रसी देवी, गांव पोक्टा भौलाड, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 3. श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्रीमती रसी देवी, गांव भौलाड, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 4. श्री दिनेश पुत्र विधा सिंह, गांव पोक्टा भौलाड, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 5. श्रीमती बनीता पुत्री विधा सिंह C/o श्री दिनेश पुत्र विधा सिंह, गांव पोक्टा भौलाड, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 6. श्रीमती चम्पी देवी पत्नी श्री विधा सिंह, गांव पोक्टा भौलाड, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 7. श्री निहाल चन्द पुत्र श्री जोबन दास, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 8. श्री हेम चन्द पुत्र श्री जोबन दास, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 9. श्री कवर चन्द पुत्र श्री जोबन दास, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 10. श्री ननक चन्द पुत्र श्री जोबन दास के वारसान (a) श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री नानक चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (b) श्रीमती सधीरा पुत्री स्व0 श्री नानक चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 11. श्रीमती केवला देवी पुत्री जोबन दास, गांव भौलाड, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 12. श्रीमती सुरी देवी पुत्री जोबन दास के वारसान (a) श्रीमती सुनिता पुत्री श्रीमती सुरी देवी पत्नी श्री बलवरी ओक्टा, गांव हाटकोटी, डा0 हाटकोटी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (b) श्री सुभाष पुत्र श्रीमती सुरी देवी, गांव धारा, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, (c) श्री बिटू पुत्र सुरी देवी, गांव बखीरना, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, (d) श्रीमती मीरा विधवा श्री लक्ष्मी पुत्र पदम चन्द, गांव बखीरना, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, (e) श्री अनिल कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी पुत्र पदम चन्द, गांव बखीरना, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, (f) श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी पुत्र पदम चन्द, गांव बखीरना, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 13. श्रीमती मैना विधवा श्री त्रिकम लाल कुमारी, गांव घेली, डा0 मान्दल, उप-तहसील सरस्वती नगर, 14. श्रीमती सलोचना पत्नी श्री केदार सिंह, गांव व डा0 मान्दल, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 15. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जगत चन्द, गांव डूनाल, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 16. श्री लोरिक पुत्र श्री सुरेन्दर, गांव डूनाल, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 17. मनसविनी पुत्री श्री सुरेन्दर, गांव डूनाल, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 18. श्रीमती प्रेम लता विधवा श्री सुरेन्दर, गांव डूनाल, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 19. श्री हिरा सिंह पुत्र श्री शिबू, गांव फागू, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 20. श्रीमती शिबू चन्दी विधवा श्री रामा नन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 21. श्री हरीमन पुत्र श्री शिबू, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 22. श्री सोहन लाल पुत्र श्री रामा नन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 23. श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री रामा नन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री रामा नन्द पत्नी श्री करतार सिंह, गांव दुचानू, डा0 टिकोची, तहसील मौरी, जिला उत्तरकाशी U.K. 24. श्रीमती सत्या देवी विधवा श्री घिना राम, गांव सैजी, डा0 समोली, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 25. श्रीमती दिपना विधवा श्री भगत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 26. संजय पुत्र श्री भगत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 27. श्रीमती चुन्नी देवी पत्नी श्री दिवान सिंह, गांव व डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 28. श्रीमती सुमित्रा विधवा श्री सुर्जन सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 29. श्री मौंटू पुत्र श्री सुर्जन सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 30. श्रीमती निलम पुत्री सुर्जन सिंह C/o श्री मौंटू पुत्र श्री सुर्जन सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 31. श्री विक्रम सिंह पुत्र स्व0 श्री नरेन्दर सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 32. नेहा पुत्री स्व0 श्री नरेन्दर सिंह C/o श्री विक्रम सिंह पुत्र स्व0 श्री नरेन्दर सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 33. शिल्पा नेहा पुत्री स्व0 श्री नरेन्दर सिंह C/o श्री विक्रम सिंह पुत्र स्व0 श्री नरेन्दर सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 34. श्रीमती कुब्जा देवी पत्नी श्री कलम सिंह, गांव हमरान, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 35. जायज वारसान श्रीमती मक्खी (a) श्री गणेश पुत्र स्व0 श्री केदार सिंह, गांव व

डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 36. (b) श्रीमती शिला देवी विधवा श्री निहाल चन्द, गांव व डा0 झगटन, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 37. श्रीमती विरमा देवी पुत्री श्री शामा नन्द पत्नी श्री भगमल, गांव शेखल, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 38. जायज वारसान श्रीमती कान्ता (a) कुसुम पत्नी स्व0 श्री त्रिलोक चन्द, गांव व डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (b) दो नाबालिक पुत्रियां, 39. श्रीमती सुनिता पुत्री श्री भगत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 40. श्रीमती विपना देवी पुत्री भगत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 41. श्री ब्रागी राम पुत्र हेत राम वारसान, (a) श्री राम लाल पुत्र स्व0 श्री ब्रागी राम, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (b) शकुन्तला पुत्री स्व0 श्री ब्रागी राम पत्नी श्री जय कृष्ण खुराना, गांव खरोट, तहसील चढगांव, जिला शिमला, हि0 प्र0, (c) श्रीमती सुनिता पुत्री स्व0 श्री ब्रागी राम पत्नी श्री अमर सिंह, गांव व डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (d) श्रीमती इन्दिरा पुत्री स्व0 श्री ब्रागी राम पत्नी श्री प्रमोद कुमार बागी, डा0 लोअरकोटी, तहसील रोहडू, 42. श्री रतन चन्द पुत्र श्री हेत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 43. श्री लायक राम पुत्र श्री हेत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 44. श्रीमती रैनू देवी विधवा श्री सुरत राम, गांव व डा0 झगटन, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 45. श्रीमती शान्ता देवी पत्नी श्री दुला राम कोटी, डा0 मान्दल, तहसील सरस्वतीनगर, 46. श्रीमती शिव देवी विधवा श्री सुरत राम, गांव कोटू, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 47. श्रीमती कुसुम लता विधवा श्री कल्याण सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 48. श्री मृदुल पुत्र श्री कल्याण सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 49. अलिशा पुत्री श्री कल्याण सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 50. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री सुरत राम, गांव कोटू, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 51. श्री सुभाष चन्ध पुत्र श्री सुरत राम, गांव कोटू, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 52. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सुरत राम, गांव कोटू, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 53. श्रीमती वीना पत्नी श्री सुरत राम, गांव कोटू, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 54. श्रीमती जमीन्ता स्व0 श्री माहिन्दर सिंह, गांव व डा0 गवास, तहसील चढगांव, जिला शिमला, हि0 प्र0, 55. श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री बबलू, गांव शिरठी, तहसील जुब्बल, 56. श्रीमती कुसुमा देवी पत्नी श्री श्रीराम, गांव क्यारी, डा0 ओल्ड जुब्बल, 57. श्री लच्छी राम पुत्र श्री हुक्म राम, गांव व जब्बलपुर MP, 58. श्रीमती सैनू देवी पुत्री श्री हुक्मी राम, गांव बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0, 59. श्री गीती राम पुत्र श्री सैहज राम, गांव बनाना, डा0 दोची, तहसील जुब्बल, 60. श्रीमती प्ररागु देवी पत्नी श्री कमला नन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 61. श्रीमती मैनी देवी विधवा स्व0 श्री जगत चन्द, गांव डूनाल, डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 62. श्री बशैर चन्द पुत्र स्व0 श्री अमर चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 63. श्री मोती राम पुत्र स्व0 श्री दौलत राम GPA (Holder) श्री अतर सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0, 64. श्री जय चन्द पुत्र श्री काना सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 65. सुमित्रा पुत्री श्री काना सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 66. मनोरमा पुत्री श्री काना सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 67. श्री रोशन लाल पुत्र श्री हरी सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 68. श्री शाम लाल पुत्र श्री हरी सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 69. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री नन्द लाल, गांव रामनगरी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 70. कृष्णा देवी विधवा बांगी रीम, गांव ढाडी, डा0 ढाडी घुन्सा, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 71. श्रीमती सुन्दला देवी पत्नी श्री जगत राम, गांव ग्यान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 72. श्रीमती विधया देवी पत्नी स्व0 श्री ज्ञान चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 73. उत्कर्ष पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 74. डॉ0 गरिमा पुत्री श्री ज्ञान चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 75. कृतिका पुत्री श्री ज्ञान चन्द C/o श्रीमती विधया देवी पत्नी स्व0 श्री ज्ञान चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र भूमि बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 28/72, 7475, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, खसरा नं0 255, 268, 443, 621, 377, 442, 458, 464, 465, 537, 965, 209, 210, 212, 215, 216, 356, 363, 364, 407, 408, 441, 466, 544, 483, 488, 490, 279, 584, 598, 602, 606, 608, 663, 665, 594, 609, 611, 616, 618, 857, 573, 503, 409, 568, 659, 343, 365, 393, 532, 536, 202, 314, 360, 546, 554, 555, 556, 585, 371, 372, 440, 480, 362, 396, 397, 398, 399, 582, 313, 317, 267, 366, 375, 376, 394, 395, 437, 444, 445, 189, 190, 367,

361, 547, 358, 380, 374, 482, 489, 587, 214, 591, 208, 211, 266, 378, 452, 457, 459, 448, 485, 487, 491, 542, 545, 545, 551, 579, 630, 664, 666, 667, 258, 259, 569, 481, 191, 204, 257, 359, 369, 370, 491, 461, 462, 535, 406, 453, 454, 455, 506, 165, 651, 674, 261, 631, 636, 640, 643, 648/1, 669, 203, 578, 632, 592, 593, 185, 463, 633/1, कित्ता 152 कुल रकबा 07-18-49 है0 (71849 sq meters) उप-महाल प्रेमनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र विशम्बर नाथ पुत्र श्री अमर सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 आदि ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 28/72, ता0 108, कित्ता 36 कुल रकबा 07-18-49 है0 (71849 sq meters) हदबस्त नं0 124/2 उप-महाल प्रेमनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादीगण को समन सही से तामिली न हो पा रहे हैं तथा उन्हें समन बराये चस्पानगी व प्रकाशन राजपत्र के माध्यम से करवाई जा सके।

अतः इस इशतहार उपरोक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 29-10-2024 को अपराहन 2.00 बजे अदालत/कार्यालय में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

समक्ष श्री कुलदीप सिंह नेगी ब अख्तियार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 05/2022

तारीख मरजुआ : 19-11-2022

तारीख पेशी : 29-10-2024

1. श्री विशम्बर नाथ पुत्र श्री अमर सिंह, 2. श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, 3. मोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, 4. श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री अमर सिंह, 5. श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री अमर सिंह, 6. श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री अमर सिंह, 7. श्रीमती कुसमा देवी पुत्री श्री अमर सिंह उपरोक्त सभी निवासीगण गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 वादी।

बनाम

1. श्री मोती राम पुत्र श्री दौलत राम GPA (Holder) श्री अतर सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 आदि, 2. (a) श्री गुमान सिंह पुत्र स्व0 श्री लच्छी राम, गांव प्रेमनगर, (b) श्री कपिल देव पुत्र लच्छी राम, गांव कोटू (c) श्रीमती जालमपति पत्नी स्व0 श्री लच्छी राम, गांव कोटू, (d) श्रीमती कमलेश पुत्री श्री लच्छी राम पत्नी श्री प्रकाश चन्द, गांव जखोड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (e) श्रीमती कल्पना पुत्री लच्छी राम विधवा श्री बोबी, गांव रोहडू, नजदीक शिकडू मन्दिर, तहसील रोहडू (f) श्रीमती सुनिता, गांव बाली करासा, तहसील रोहडू, 3. श्रीमती ममता देवी पत्नी स्व0 श्री जय सिंह हाल आशा वर्कर सिविल अस्पताल सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 4. रिधम ना बालिक पुत्र स्व0 श्री जय सिंह C/o श्रीमती ममता देवी, हाल आशा वर्कर सिविल अस्पताल सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 5. कुमारी श्रिया पुत्री स्व0 श्री जय सिंह C/o श्रीमती ममता देवी, हाल आशा वर्कर सिविल अस्पताल सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 6. श्री कमाल चन्द पुत्र श्री मंगत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 7. श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री मंगत राम C/o कमाल चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 टुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 8. श्री जय चन्द पुत्र श्री काना सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0

दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 9. श्री रोशन लाल पुत्र श्री हरी सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 10. (a) श्रीमती विदया देवी पत्नी स्व0 श्री ज्ञान चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (b) उत्कर्ष पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (c) डॉ0 गरिमा पुत्री श्री ज्ञान चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (d) कृतिका पुत्री श्री ज्ञान चन्द C/o श्रीमती विदया देवी पत्नी स्व0 श्री ज्ञान चन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 11. श्री शाम लाल पुत्र श्री हरी सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 12. श्री देविन्दर सिंह पुत्र श्री शाम लाल, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 13. हिमाचल प्रदेश सरकार, 14. श्री कमला नन्द पुत्र श्री गुसाई, गांव सरस्वतीनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 15. श्री हीरा सिंह पुत्र शिबू फागू, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, 16. श्रीमती शिव चन्दी विधवा स्व0 श्री रामा नन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 17. श्री हरीमन पुत्र श्री शिबू, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 18. श्री सोहन लाल पुत्र श्री शामा नन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 19. श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री शामा नन्द, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 20. श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री शामा नन्द पत्नी श्री करतार सिंह, गांव दुचानू, डा0 टिकोची, तहसील मौरी, जिला उत्तरकाशी U.K., 21. श्रीमती सत्या देवी विधवा श्री घिना राम, गांव सैजी, डा0 समोली, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 22. श्रीमती दिपना विधवा श्री भगत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 23. संजय पुत्र श्री भगत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 24. श्रीमती चुन्नी देवी पत्नी श्री दिवान सिंह, गांव व डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 25. श्रीमती कुब्जा देवी पत्नी श्री कलम सिंह, गांव हमरान, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 26. जायज वारसान श्रीमती मक्खी (a) श्री गणेश पुत्र स्व0 श्री केदार सिंह, गांव व डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (b) श्रीमती शिला देवी विधवा श्री निहाल चन्द, गांव व डा0 झगटान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 27. श्रीमती विरमा देवी पुत्री श्री शामा नन्द पत्नी श्री भगमल, गांव शेखल, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0, 28. जायज वारसान श्रीमती कान्ता, (a) कुसुम पत्नी स्व0 श्री त्रिलोक चन्द, गांव व डा0 भौलाड, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (b) दो नाबालिक पुत्रियां, 29. श्री रतन चन्द पुत्र श्री हेत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 30. जायज वारसान श्री पुरन चन्द, (a) श्री निकम सिंह पुत्र स्व0 श्री पुरन चन्द, गांव भकान, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (b) रीकुन्दन सिंह पुत्र स्व0 श्री पुरन चन्द, गांव भकान, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (c) श्री राम लाल पुत्र स्व0 श्री पुरन चन्द, गांव भकान, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (d) श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री पुरन चन्द, गांव भकान, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (e) श्रीमती बिना दुल्ता पुत्री पुरन चन्द पत्नी स्व0 श्री राम लाल, गांव राँवी, डा0 ढाडी, उप-तहसील सरस्वतीनगर, (f) श्रीमती लीला रपटा पुत्री पुरन चन्द पत्नी स्व0 श्री शामा नन्द, गांव मलोग, डा0 नन्दपुर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, 31. श्री लायक राम पुत्र श्री हेत राम, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र भूमि बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 18/30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 व 52, खसरा नं0 251, 264, 633, 673, 645, 646, 647, 655, 657, 660, 1051/670, 676, 691, 692, 703, 970, 201, 205, 207, 213, 217, 252, 253, 1053/309, 310, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 504, 576, 577, 599, 604, 605, 622, 624, 589, 628, 1052/309, 619, 613, 615, 617, 277, 620, 658, 667, 672, 687, 601, 206, 260, 276, 302, 303, 475, 478, 479, 492, 567, 571, 583, 542, 543, 554, 971, 972, 262, 580, 581, 603, 192, 193, 186, 187, 188, 654, 184, 218, 219, 223, 495, 497, 595, 600, 607, 623, 625, 626, 644, 652, 656, 662, 668, 675, 649, 615/1, 856, 705, 1050/670, 304, 596, 648, 671, 653, कित्ता 108 कुल रकबा 05-75-13 है0 (57513 sq meters) हदबस्त नं0 124/2 उप-महाल प्रेमनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

प्रार्थना-पत्र विशम्बर नाथ पुत्र श्री अमर सिंह, गांव प्रेमनगर, डा0 दुरान, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 आदि ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 18/30, ता0 52, कित्ता 23 कुल रकबा 05-75-13 है0 (57513 sq meters) हदबस्त नं0 124/2 उप-महाल प्रेमनगर, उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला, हि0 प्र0 बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादीगण को समन सही से तामिली न हो पा रहे हैं तथा उन्हें समन बराये चस्पानगी व प्रकाशन राजपत्र के माध्यम से करवाई जा सके।

अतः इस इशतहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 29-10-2024 को अपराहन 2.00 बजे अदालत/कार्यालय में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सरस्वतीनगर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सराहन,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 109/2024

तारीख दायर : 28-05-2024

अगली सुनवाई : 30-10-2024

श्रीमती सुरज देवी पत्नी श्री गीता राम, निवासी गांव व डा0 निगुलसरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

1. श्री रमेश पुत्र स्व0 श्री मोई निवासी गांव कमडाली, डा0 बौण्डा, उप-तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती अराजी खाता/खतौनी नं0 139/439, खसरा नं0 1000, रकबा तादादी 00-13-47 है0, वाका चक बौण्डा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती सुरज देवी पत्नी श्री गीता राम, निवासी गांव व डा0 निगुलसरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 139/439, खसरा नं0 1000, रकबा तादादी 00-13-47 है0, वाका चक बौण्डा, में वादी कब्जा दर्ज इन्द्राज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में श्री सुख दास पुत्र श्री खोंई राम का कब्जा दुरुस्त/दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

